



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1982/ पौष 17, 1903
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1982/PAUSA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1982

का.आ. 11(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के
अनुसरण में निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे उसका
नाम प्रशासक, मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल के रूप में प्राप्त हो) राष्ट्रपति के
नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगला आदेश होने तक निम्नलिखित के सम्बन्ध
में आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 3, धारा 8 या
धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

- (1) संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक सफाई स्वच्छता या जल प्रदाय की
किसी प्रणाली, अस्पतालों या औषधालयों में या उसके कार्य-
करण के सम्बन्ध में कोई सेवा :

- (2) संघ राज्य-क्षेत्र में, शक्ति के उत्पादन, प्रदाय या वितरण से सम्बद्ध किसी स्थापन या उपक्रम में कोई सेवा ;
- (3) संघ राज्य क्षेत्र के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई सेवा ।

[सं. यू-11030/2/81-यू टी एल]

अर. बी. पिस्से, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1982

S.O. 11(E)—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Chief Commissioner or Lt. Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the Central Government under section 3, section 8 of section 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) in relation to:—

- (i) any service in, or connection with the working of, any system of public conservancy, sanitation or water supply, hospitals or dispensaries in the Union territory ;
- (ii) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of power in the Union territory;
- (iii) any service in connection with the affairs of the Union territory.

[No. U-11030/2/81-UTL]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.